



दिनांक:- 25.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गुण्डा एक्ट की कार्यवाही



आज दिनांक 25.11.2020 पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्र०नि० पनवाड़ी विनोद कुमार यादव द्वारा अपराध पर नियंत्रण करने एवं अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 06 नफर अभियुक्तों 1. अभिषेक पुत्र अखिलेश राजपूत 2. रत्तू पुत्र अशोक गौतम 3. सुल्तान सिंह पुत्र दीनदयाल राजपूत 4. सन्दीप पुत्र महिपाल उर्फ

भूरा 5. दिनेश पुत्र आशाराम 6. अजय अहिरवार पुत्र रमेश चन्द्र अहिरवार के विरुद्ध क्रमशः सि.सि.नं०- 21,22,23,24,25,26/2020 धारा 3 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

अपराधियों के नाम जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी -

1. अभिषेक पुत्र अखिलेश राजपूत निवासी नेकपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. रत्तू पुत्र अशोक गौतम निवासी गुगौरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. सुल्तान सिंह पुत्र दीनदयाल राजपूत निवासी सलैया खालसा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
4. सन्दीप पुत्र महिपाल उर्फ भूरा निवासी किल्हौवा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
5. दिनेश पुत्र आशाराम निवासी बुडौरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
6. अजय अहिरवार पुत्र रमेश चन्द्र अहिरवार निवासी हरिजन बस्ती कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।



दिनांक:- 25.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च करके की गई अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक

समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।

आज दिनांक 25.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह मयहमराह एवं कोतवाली पुलिस के साथ महोबा शहर में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/बाजार/धार्मिक जगहों की चेकिंग की एवं कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के





दिनांक:- 25.11.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 3900/-रु0 का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये गये 52ई-चालान



आज दिनांक 25.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19**

के तहत 29 व्यक्तियों से 3900/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 52 ई-चालान भी किया गया। इसी क्रम में परमानन्द तिराहे पर क्षेत्राधिकारी यातायात श्री कालू सिंह द्वारा राहगीरों को मास्क वितरण किये गये। इस दौरान यातायात उ0नि0 अरविन्द मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

